

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1
(पैराग्राफ 1.1.5 देखें)
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निकासी			अन्तिम शेष		
	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य
2009-10	289	4,481	3,093.36	108	2,972	2,900.71	11	301	218.47	386	7,152	5,775.60
2010-11	386	7,152	5,775.60	54	2,009	1,831.89	85	564	434.09	355	8,597	7,173.40
2011-12	355	8,597	7,173.40	96	2,204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
2012-13	427	10,144	9,858.65	104	1,610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	0.00	558	11,941	11,595.76
2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	9	129	4.12	690	12,617	11,796.04
2016-17	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.30	790	12,910	11,480.78
2017-18	790	12,910	11,480.78	70	499	1,038.00	9	3,879	5,383.67	851	9,530	7,135.11
2018-19	851	9530	7,135.11	65	393	510.05	6	328	298.74	910	9,595	7,346.42

अनुलग्नक 1.2
(पैराग्राफ 1.1.6 देखें)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफों की स्थिति व वसूल की गई राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों का धन मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धन मूल्य	वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2019 तक स्वीकृत मामलों की वसूल की गई संचित स्थिति	वसूली की प्रतिशतता
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	-	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	-	0.01	0.14
2016-17	7	254.46	7	7.04	-	00	0.00
2017-18	7	705.58	7	390.39	-	0.00	0.00
कुल	90	9,054.81	42	732.28	-	1.85	0.25

अनुलग्नक 1.3
(पैरा 1.3 (ए) देखें)
व्यावसायिक के बजाय लागू की गई आवासीय दरें

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पंजी. संख्या/बुक सं./वॉल्यूम सं./दिनांक	क्षेत्र/प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मी.)	सर्कल रेट के अनुसार संपत्ति की राशि	देय स्टाम्प ड्यूटी (एसडी) और पंजीकरण शुल्क(पंजी.शु.) {एसडी की दर-6% (पुरुष) या 4% (महिला), पंजी.शु.की दर-1% }	भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	अन्तर	टिप्पणियां
1.	5180/1/1743 4/91-106/ 28.05.2018	1227.67, 552	भू.ला. =127680*3*1227.67 = 470246717 नि.ला. =12840*.6*552 = 4252608 कुल लागत : 474499325	एसडी-28469960 पंजी.शु.-4744993 कुल =33214953	एसडी-9627000 पंजी.शु.-1604452 कुल =11231452	21983501	संपत्ति निटको लॉजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 1975 में खरीदी गई थी और इसका उपयोग इसकी शाखा कार्यालय के रूप में किया गया था। बाद में इसे सुजाता होटल्स प्राईवेट लिमिटेड ने वर्ष 2005 में खरीद लिया लेकिन इसके अनुरोध पर इस विलेख के माध्यम से एसएचपीएल रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में विलेख बनाया गया। संपत्ति 1975 के बाद से व्यावसायिक रूप में उपयोग में है। इस प्रकार, इसे व्यावसायिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए।
2.	14220/1/240 61/87-94 /14.12.2018	139.63, 130.90	भू.ला. =139.63*127680*3 = 53483875 नि.ला. =130.90*12840 =1680756 कुल लागत : 55164631 संपत्ति की लागत का 50% =27582316	एसडी-1654939 पंजी.शु.-275823 कुल=1930762	एसडी-921000 पंजी.शु.-153500 कुल=1074500	856262	हस्तांतरण के तहत संपत्ति व्यावसायिक दुकान प्लॉट पर बनाई गई है। इस प्रकार संपत्ति व्यावसायिक है।

3.	10455/16734/ 1-15/ 08.12.2016	12.76, 63.777	भू.ला. =12.76*127680*3 = 4887590 नि.ला.=63.777*12840 = 818897 कुल लागत= 5706487	एसडी-342389 पंजी.शु.-57065 कुल=399454	एसडी-141000 पंजी.शु.-23500 कुल=164500	234954	प्रस्तुतीकरण विवरण के अनुसार संपत्ति को दुकान के रूप में दिखाया गया है, साथ ही पूरे मंजिल को मानचित्र में दुकान के रूप में दिखाया गया है। बगल के हिस्से को भी समान क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य संपत्ति को 'व्यावसायिक' के रूप में पंजीकृत किया गया है।
4.	10456/16734/ 16-30/ 08.12.2016	12.76, 63.777	भू.ला. =12.76*127680*3 = 4887590 नि.ला.=63.777*12840 =818897 कुल लागत=5706487	एसडी-342389 पंजी.शु.-57065 कुल=399454	एसडी-141000 पंजी.शु.-23500 कुल=164500	234954	प्रस्तुतीकरण विवरण के अनुसार संपत्ति को दुकान के रूप में दिखाया गया है, साथ ही पूरे मंजिल को मानचित्र में दुकान के रूप में दिखाया गया है। बगल के हिस्से को भी समान क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य संपत्ति को 'व्यावसायिक' के रूप में पंजीकृत किया गया है।
5.	10574/16739/ 59-68/ 19.12.2016	232.43, 901.29	भू.ला. =232.43*70080*3 =48866083 नि.ला. =901.29*.6*10800 =5840359 कुल लागत= 54706442 15% अंश= 8205966	एसडी-328239 पंजी.शु.-82060 कुल=410299	एसडी-192000 पंजी.शु.-48000 कुल=240000	170299	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार संपत्ति में किसी भी आवासीय मंजिल अर्थात् पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर कोई रसोई नहीं है। इसके अलावा, इन मंजिलों के सभी कमरे शौचालय युक्त हैं और कमरे इतने व्यवस्थित हैं कि पैसेज से हर एक की सेवा एक होटल की तरह कर सकते हैं। इसके अलावा, एनडीएमसी से सत्यापित किया गया और पाया कि संपत्ति एक व्यावसायिक संपत्ति है।
6.	7728/1/2284 5/101- 120/11.08.20 16	108.70, 371.6	भू.ला. 108.70*127680*3/4 =10409112 नि.ला. 92.90*12840 =1192836 कुल लागत-11601948	एसडी-696117 पंजी.शु.-116019 कुल=812136	एसडी-360000 पंजी.शु.-60000 कुल=420000	392136	हस्तांतरण के तहत संपत्ति व्यावसायिक दुकान की प्लॉट पर बनाई गई है।
कुल						23872106	

अनुलग्नक 1.4
(पैरा 1.3 (बी) देखें)
संपत्तियों के मूल्यांकन की गलत गणना

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पंजी. संख्या/बुक सं./वालयूम सं./पंजीकरण की तिथि	क्षेत्र/प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मी.)	सर्कल रेट के अनुसार संपत्ति की राशि	देय स्टाम्प ड्यूटी {दर-6%(पुरुष) या 4% (महिला)} और पंजीकरण शुल्क दर -1%	भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	अन्तर	टिप्पणियां
उप-पंजीयक विवेक विहार							
1.	4704/1/811/ 05.07.2016	41.805, 82.9	भू.ला. -56640*41.805*1 = 2367835 नि.ला. - 8220*82*.9*1 = 606636 दूसरी मंजिल - 8220*41*1*1 = 337020 कुल लागत - 3311491	6%=198689 1%=33115 = 231804	प्रतिफल राशि ₹ 38000 199800 + 1000 = 200800	31004	पंजीकरण शुल्क ₹ 33115 के स्थान पर ₹1000 भुगतान किया गया
2.	4996/1/822/ 15.07.2016	32.16, 107.99	भू.ला. -127680*32.16*3 = 12318566 नि.ला. - 12840*107.99*1*1 = 1386592 कुल लागत - 13705158 83.4% @6%- 11430102 16.6% @4% - 2275056	6%=685806 4%=91002 1%= 137052 = 913860	प्रतिफल राशि ₹ 7000000 749000 + 132000 = 881000	32860	नि.ला. की गणना करते समय सुपर क्षेत्र नहीं लिया गया।
3.	5142/1/827/ 20.07.2016	7.54, 7.54	भू.ला. -70080*7.54*3 = 1585210 नि.ला. - 10800*7.54*.8*1 = 65146 कुल लागत - 1650356	4%=66014 1%=16504 = 82518	प्रतिफल राशि ₹ 750000 30000 + 7500 = 37500	45018	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

4.	5161/1/828/ 21.07.2016	44.93, 44.93	भू.ला. - 70080*44.93*3/1 = 9446083 नि.ला. - 10800*44.93*.8*1 = 388195 कुल लागत - 9834278	6%=590057 1%=98343 = 688400	प्रतिफल राशि ₹ 3550000 213000 + 35500 = 248500	439900	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। भू.ला. की गणना करते समय भूमि का पूरा क्षेत्र लिया जाना चाहिए।
5.	5162/1/828/ 21.07.2016	9.05, 9.05	भू.ला. -70080*9.05*3 = 1902672 नि.ला. - 10800*9.05*1*1 = 97740 कुल लागत - 2000412	6%=120025 1%=20004 = 140029	प्रतिफल राशि ₹ 750000 45000 + 7500 = 52500	87529	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
6.	5362/1/835/ 28.07.2016	6.5, 6.5	भू.ला. -70080*6.5*3 = 1366560 नि.ला. - 10800*6.5*.8*1 = 56160 कुल लागत - 1422720	6%=85363 1%=14227 = 99590	प्रतिफल राशि ₹ 600000 36000 + 6000 = 42000	57590	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
7.	8927/1/1294/ 15.12.2017	70.2324, 70.2324	भू.ला. - 56640*70.2324*3/2 = 5966945 भू.ला. - 56640*70.2324*1/2 =1988982 नि.ला. - 9480*70.2324*0.8*1 = 532643 कुल लागत - 8488570	6%=509314 1%=84886 = 594200	प्रतिफल राशि ₹ 7170000 430200 + 71700 = 501900	92300	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को 3 के स्थान पर 2 से विभाजित किया जाना चाहिए।
8.	9074/1/1300/ 20.12.2017	55.60, 16.72	भू.ला. -56640*55.60 = 3149184 भू.ला. -56640*16.72*3 =2841062 नि.ला. - 8220*55.60*0.8*1 = 365626 नि.ला. - 9480*16.72*0.8*1 = 126804 कुल लागत - 6482676	4%=259307 1%=64826 = 324133	प्रतिफल राशि ₹ 2500000 100000 + 25000 = 125000	199133	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

9.	4278/1/1480/ 18.05.2018	10.37, 10.37	भू.ला. - 70080*10.37*1/2 = 363365 नि.ला. - 9360*10.37*0.9*1 =87357 कुल लागत - 450722	6%=27043 1% =4507 = 31550	प्रतिफल राशि ₹ 280000 16800 + 2800 = 19600	11950	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को 3 के स्थान पर 2 से विभाजित किया जाना चाहिए।
10.	4581/1/1492/ 29.05.2018	43.47, 42	भू.ला. -56640*43.47/3 = 820714 नि.ला. - 8220*42*1*1 = 345240 कुल लागत - 1165954	6%=69957 1% =11660 = 81617	प्रतिफल राशि ₹ 1100000 66000 + 11000 = 77000	4617	नि.ला. के लिए आयु घटक 1 के स्थान पर 0.8 का उपकुल किया गया।
11.	1601/1/1015/ 30.03.2017	193, 193	भू.ला. -193*70080 =13525440 नि.ला. - 193*9360*1 =1806480 कुल लागत -15331920	4%=613277 1% =153319 =766596	प्रतिफल राशि ₹ 12520000 500800 + 125200 = 626000	140596	संपत्ति कृष्णा नगर में है और यह एफ के बजाय श्रेणी ई में आती है। इसलिए दरें एफ के स्थान पर ई श्रेणी की लागू की जानी चाहिए।
उप-पंजीयक कालका जी							
12.	1926/1/14563/ 11.05.2017	आनुपातिक भूमि हिस्सा 36.89 (6896*59.78/1117 2.241) प्लिंथ क्षेत्र 59.78	भू.ला. - 36.89*127680*3*1 = 14130346 नि.ला. - 59.78*12840*1*1 = 767575 कुल लागत- 14897921	6%=893875 1%=148979 = 1042854	प्रतिफल राशि ₹ 5949832 376800 + 59499 = 436299	606555	भूमि के हिस्से की राशि की गणना नहीं की गयी, पार्टी द्वारा केवल प्लिंथ क्षेत्र पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया ।
13.	1214/1/15314/ 07.03.2019	आनुपातिक भूमि हिस्सा 18.30 (6896*29.66/1117 2.241) प्लिंथ क्षेत्र 29.66	भू.ला. - 18.30*127680*3*1 = 7009632 नि.ला. - 29.66*12840*1*1 = 380834 कुल लागत - 7390466	5%=369523 1%=73905 = 443428	प्रतिफल राशि ₹ 4120000 206000 + 41200 = 247200	196228	स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना अधिसूचना के अनुलग्नक के पैरा 1 और 3 (अर्थात भूमि लागत और नि.ला. अलग-अलग) के अनुसार लागू नहीं की गई।

उप-पंजीयक रोहिणी						
14.	4353/1/6883/ 10.05.2016	34, 34	भू.ला. - 34*70080*1*1 =2382720 नि.ला. - 34*9360*1*1 =318240 कुल लागत - 2700960	6%=162058 1% =27010 = 189068	प्रतिफल राशि ₹ 2500000 150000 + 25000 = 175000	14068 फॉर्म-ए के अनुसार हस्तांतरण संपत्ति का प्लिंथ क्षेत्र 34 वर्गमीटर है, लेकिन गणना के लिए प्लिंथ 34 वर्गमीटर के स्थान पर 11.22 वर्गमीटर लिया गया।
15.	4743/1/6899/ 20.05.2016	60, 60	भू.ला. -60*70080*1*1 =4204800 नि.ला. - 60*9360*1*1 =561600 कुल लागत - 4766400	5%=238320 1%=47664 = 285984	प्रतिफल राशि ₹ 4400000 220000 + 44000 = 264000	21984 फॉर्म-ए के अनुसार हस्तांतरण संपत्ति का प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर है, लेकिन नि.ला. की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर के स्थान पर 20 वर्गमीटर लिया गया।
16.	4825/1/6902/ 24.05.2016	60, 60	भू.ला. -60*70080*1*1 =4204800 नि.ला. - 60*9360*1*1 =561600 कुल लागत - 4766400	5%=238320 1%=47664 = 285984	प्रतिफल राशि ₹ 4400000 220000 + 44000 = 264000	21984 फॉर्म-ए के अनुसार हस्तांतरण संपत्ति का प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर है, लेकिन नि.ला. की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर के स्थान पर 20 वर्गमीटर लिया गया।
17.	2511/1/8356/ 07.03.2019	400, 660	भू.ला. - 400*46200*2*1 =36960000 नि.ला. - 660*8040*1*1 =5306400 कुल लागत - 42266400	6%=2535984 1%= 422664 = 2958648	प्रतिफल राशि ₹ 41800000 2508000 + 418000 =2926000	32648 फॉर्म-ए के अनुसार निर्माण का वर्ष 2000 है, इसलिए, संपत्ति के निर्माण की लागत की गणना के लिए आयु घटक 0.09 के स्थान पर 1.0 लागू किया जाना चाहिए।
18.	3068/1/8380/ 22.03.2019	56.144, 56.144	आनुपातिक भूमि का हिस्सा 996.387*56.144/5526.96 = 10.12 भू.ला. - 10.12*70080*3 =2127629 नि.ला. - 56.144*10800*1*1 = 606355 कुल लागत -2733984	6%=164039 1%=27340 =191379	प्रतिफल राशि ₹ 2600000 156000 +26000 =182000	9379 दस्तावेज में संपत्ति के निर्माण की लागत की गणना करते समय सुपर क्षेत्र नहीं लिया गया।

19.	3069/1/8380/ 22.03.2019	29.97, 29.97	आनुपातिक भूमि हिस्सा 996.387*29.97/5526.96 = 5.40 भू.ला. -5.40*70080*3 =1135296 नि.ला. - 29.97*10800*1*1 = 323676 कुल लागत -1458972	6%=87538 1%=14590 =102128	प्रतिफल राशि ₹ 1400000 84000 +14000 =98000	4128	दस्तावेज में संपत्ति के निर्माण की लागत की गणना करते समय सुपर क्षेत्र नहीं लिया गया।
उप-पंजीयक आसफ अली रोड							
20.	4563/1/17407/ 10.05.2018	104.52, 43.025	भू.ला. - 104.52*127680*1/4 =3336278 नि.ला. - 43.025*11160*1*1 =480159 कुल लागत - 3816437	6%=228986 1%=38164 =267150	प्रतिफल राशि ₹ 3500000 210000 +350000 =245000	22150	निर्माण की लागत 43.025 वर्गमीटर (मानचित्र के अनुसार सही प्लिंथ क्षेत्र) के स्थान पर 14 वर्गमीटर ली गयी। हस्तांतरित संपत्ति के कुल मूल्य की गणना के लिए तीसरी मंजिल की छत के अधिकारों के लिए कोई प्रतिफल राशि नहीं ली गई।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

21.	4159/1/17389/ 01.05.2018	125.42, 104.518	भू.ला.-25.09*127680*1 =3203491 नि.ला.-11160*125.423*1*1 =1399721 कुल लागत- 4603212	5%=230160 1%=46032 =276192	प्रतिफल राशि ₹ 3450000 172500 +34500 =207000	69193	निर्माण की लागत रसोईघर, स्नान गृह इत्यादि चौथी मंजिल के निर्माण सहित (सही प्लिंथ क्षेत्र) 125.423 वर्ग मीटर के स्थान पर 20.91 वर्ग मीटर ली गयी।
22.	5113/1/17431/ 30.05.2018	46.01, 46.01	भू.ला.- दो मंजिलों के लिए: 46.01*127680*1*2/5 =2351866 नि.ला.-दो मंजिलों के लिए: 46.01*11160*1*1*2 =1026943 कुल लागत- 3378809	4%=135152 1%=33788 =168940	प्रतिफल राशि ₹ 1695000 67800 +16950 =84750	84190	दो मंजिलों की बिक्री में केवल एक मंजिल की भूमि की लागत शामिल है।
23.	5212/1/17435/ 29.05.2018	71.81, 71.81	भू.ला.-71.81*127680*1/4 = 2292175 नि.ला.-71.81*11160*1*.8 =641120 कुल लागत- 2933295	4%=117332 1%=29333 =146665	प्रतिफल राशि ₹ 2500000 100000 +25000 =125000	21665	भू.ला. 14.362 वर्ग मीटर की अपेक्षा 17.9525(71.81/4) वर्ग मीटर ली गई
24.	4134/1/17388/ 01.05.2018	57, 128.43	भू.ला.-40% 214.05*127680*40/100 = 10931962 नि.ला.-40% 214.05*11160*1.5*.6*40/100 = 859967 कुल लागत- 11791929	6%=707516 1%=117919 =825435	प्रतिफल राशि ₹ 11600000 696000 +116000 =812000	13435	दो मंजिलों सहित कुल सम्पत्ति का 40% हिस्सा हस्तांतरण के अंतर्गत है। प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत शामिल नहीं है।
25.	4755/1/17415/ 15.05.2018	18.58, 74.36	भू.ला.-18.58*70080*3*1 = 3906259 नि.ला.-74.36*10800 = 803088 कुल लागत- 4709347	5%=235467 1%=47093 =282560	प्रतिफल राशि ₹ 4000000 200000 +40000 =240000	42560	भू.ला. 14.87 वर्ग मीटर की अपेक्षा 18.58 वर्ग मीटर (8*25/9/50*41.81) ली गई।
26.	1195/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% (117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)] = 3085272 नि.ला. 25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)] = 508005 कुल लागत- 3593277	6%=215597 1%=35933 =251530	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 189000 +31500 =220500	31030	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लॉट क्षेत्र 75.24 वर्ग मीटर लिया गया था।
27.	1197/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% {(117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)}] = 3085272	6%=215597	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 189000 +31500	31030	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लॉट क्षेत्र 75.24 वर्ग

			नि.ला.-[25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)}] = 508005 कुल लागत- 3593277	1%=35933 =251530	=220500		मीटर लिया गया था।
28.	1196/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% {(117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)}] = 3085272 नि.ला.-[25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)}] = 508005 कुल लागत- 3593277	4%=143731 1%=35933 =179664	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 126000 +31500 =157500	22164	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लॉट क्षेत्र 75.24 वर्ग मीटर लिया गया था।
29.	1194/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% {(117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)}] = 3085272 नि.ला.-[25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)}] = 508005 कुल लागत- 3593277	4%=143731 1%=35933 =179664	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 126000 +31500 =157500	22164	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लॉट क्षेत्र 75.24 वर्ग मीटर लिया गया था।
30.	1130/1/17255/ 03.02.2018	64.431, 42.27	भू.ला.-66.431*56640*3/5 = 2257591 नि.ला.-66.431*9480*.9 = 566789 कुल लागत-2824380	6%=169463 1%=28244 =197707	प्रतिफल राशि ₹ 1800000 108000 +18000 =126000	71707	दस्तावेजों के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार दस्तावेजों में उल्लिखित 42.27 वर्गमीटर के स्थान पर प्लॉट क्षेत्र की गणना 66.431 वर्ग मीटर (55*130/9/50*41.81) निकाली गई।
31.	9802/16705/ 31.10.2016	238.71, 167.09	भू.ला.-238.71*127680/4 = 7619623 नि.ला.-167.09*11160 = 1864724 स्टिल्ट की लागत-32.51*11160 =362812 कुल लागत- 9847159	4%=393886 1%=989472 =492358	प्रतिफल राशि ₹ 8400000 336000 +84000 =420000	72358	मंजिलों की संख्या चार है। चार मंजिलों के लिए हस्तांतरित आनुपातिक भूमि का अधिकार ¼ होना चाहिए जबकि 1/5 लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य हिस्सों तथा सामान्य क्षेत्र सहित संपत्ति के अन्य हिस्से को शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया।
32.	10734/16745/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6%=1808075 1%=301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000 1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकलता है परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।

33.	10703/16744/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6% = 1808075 1% = 301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000 1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकला परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।
34.	10705/16744/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6%=1808075 1%=301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000 1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकला परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।
35.	10706/16744/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6%=1808075 1%=301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000 1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकला परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।
36.	1586/16819/ 14.03.2017	138.19, 73.67	भू.ला.-138.19*127680*1/5 = 3528820 नि.ला.-73.67*11160*1*1 = 822157 कुल लागत = 4350977	6%=261059 1% =43510 = 304569	प्रतिफल राशि ₹ 2800000 151200 + 28000 = 179200	125369	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 35 फीट *42.6 फीट (138.19 वर्ग मी.) निकला परंतु दस्तावेज केवल 73.67 वर्ग मी. की भूमि लागत का पंजीकृत हुआ।
37.	10622/16741/ 20.12.2016	46.45/46.45	भू.ला.-46.45*70080*1/4 = 813804 नि.ला.-46.45*9360*1*1 = 434772 कुल लागत-1248576	6%=74914 1%=12486 =87400	प्रतिफल राशि ₹ 1095000 65700 +10950 =76650	10750	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र विक्री का 92.85 वर्ग मी. है सुपर क्षेत्र 46.45 वर्ग मी. तथा तल क्षेत्र 41.81 वर्ग मी. है केवल तल क्षेत्र की नि.ला., और सुपर क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

38.	9108/16675/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर है। (434 वर्ग गज) आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
39.	9109/16675/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर है। (434 वर्ग गज) आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।

40.	9110/16676/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
41.	9111/16676/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
42.	9130/16677/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।

43.	9131/16677/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
44.	9145/16677/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
45.	9146/16678/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।

46.	9147/16678/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 तल क्षेत्र 412.7 (350 (आर)+ 62.7(सी)	भूमि का आवासीय हिस्सा (आर)350*362.86/412.7=307.73 भूमि का व्यावसायिक हिस्सा (सी)62.7*362.86/412.7=55.13 भू.ला.(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भू.ला. (सी)-5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
47.	9148/16678/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 तल क्षेत्र 412.7 (350 (आर)+ 62.7(सी)	भूमि का आवासीय हिस्सा (आर)350*362.86/412.7=307.73 भूमि का व्यावसायिक हिस्सा (सी)62.7*362.86/412.7=55.13 भू.ला.(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भू.ला. (सी)-5.51*70080*3 =1158422 नि.ला. (आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला. (सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
एसआर, बसई दारापुर							
48.	13712/1/24040/03. 12.2018	207 , 176.62	भूमि (103.8*1+2.9*3+110.32*3+17.42*3)=49 5.72 भू.ला.-495.72*127680 /4 =15823382 नि.ला. -98.1545*11160*1*1 =1095404 कुल लागत- 16918786	4%=676751 1%=169188 =845939	प्रतिफल राशि ₹ 12300000 492000 +123000 =615000	230939	मंजिलों की संख्या चार है। इसलिए, दिया गया कुल प्लिंथ क्षेत्र गलत है। 4 मंजिलों के लिए कुल प्लिंथ क्षेत्र अधिकतम 830.4 वर्ग मीटर हो सकता है। भू-गृह का कुल प्लिंथ क्षेत्र नहीं दिया गया है, इसलिए, हस्तांतरित किए गए क्षेत्र को आधा लिया गया है। इस प्रकार, पंजीकरण शुल्क का भुगतान कम हुआ है।

49.	11513/1/23455/30. 11.2017	167.22 ,78.39	भू.ला.- 167.22*127680/5 =4270130 नि.ला.-78.39*11160*1*1 =874832 कुल - 5144962	4%=205799 1%=51430 257249	प्रतिफल राशि ₹ 4000000 160000 +40000 =200000	57249	हस्तांतरण के अंतर्गत संपूर्ण भू-गृह है, परन्तु प्रतिफल में भूमि का हिस्सा गलत लिया गया है।
50.	7892/1/22852/ 12.08.2016	22.4 , 22.4	भू.ला.-22.4*127680*3*2/3 =5720064 नि.ला.-443750 कुल लागत. - 6163814	6%=369829 1%=61638 =431467	प्रतिफल राशि ₹ 4135000 248100 +41350 =289450	142017	मंजिलों की संख्या केवल तीन थी, परन्तु चार लिया गया।
51.	8108/1/22860/ 22.08.2016	52.91, 52.91	भू.ला.-52.91*127680/2 = 3377774 नि.ला.-52.91*11160*.8 =472381 कुल लागत- 3850155	5%=192508 1%=38502 =231010	प्रतिफल राशि ₹ 2100000 105000 +21000 =126000	105010	मंजिलों की संख्या दो है, जिसमें प्लॉट का आकार 25 वर्ग मीटर है और दस्तावेज के अनुसार हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ क्षेत्र 52.91 वर्ग मीटर है जो कि गलत है।
52.	14021/1/24052/11. 12.2018	50,45	भू.ला.-50*127680/2 = 3192000 नि.ला.-45*11160*.8 =401760 कुल लागत - 3593760	4%=143750 1%=35938 =179688	प्रतिफल राशि ₹ 2400000 96000 +24000 =120000	59688	मंजिलों की संख्या दो है, जिसमें प्लॉट का आकार 12.5 वर्ग मीटर है और दस्तावेज के अनुसार हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ क्षेत्र 45 वर्ग मीटर है जो कि गलत है। गणना में उपकूल किया गया प्लॉट का क्षेत्र 12.5 वर्गमीटर ना होकर 50 वर्गमीटर है।
53.	7393/1/22832/ 01.08.2016	48 ,35	भू.ला.-48*127680/3 = 2042880 नि.ला.-35*11160*.9 = 351540 कुल लागत- 2394420	4%=95777 1%=23944 =119721	प्रतिफल राशि ₹ 1950000 78000 +19500 =97500	22221	दस्तावेज के अनुसार आवृत क्षेत्र 48 वर्ग मीटर है।
54.	11869/1/23469/11. 12.2017	292.55,50.73	भू.ला.-50.73*3*127680/2 = 9715810 नि.ला.-50.73*12840*.7 = 455961 कुल लागत-10171771	6%=610306 1%=101718 =712024	प्रतिफल राशि ₹ 8000000 480000 +80000 =560000	152024	दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार हस्तांतरण के अंतर्गत क्षेत्र 50.73 वर्ग मीटर है। 15 * 28 + 14 * 9 = 546 वर्ग फीट 546 वर्गफीट = 546/9 * 83.61 * 100 = 50.73 वर्ग मीटर।
55.	11848/1/23468/ 08.12.2017	260.12 ,92.34	भू.ला.- 127680*260.12*1/3*1/2 =5535354 नि.ला.-92.34*11160=1030514 कुल लागत : 6565868	4%=262635 1%=65659 =328294	प्रतिफल राशि ₹ 5186600 207500 +51830 =259330	68964	चूंकि मंजिलें 3 हैं, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते समय प्रतिफल एक मंजिल के आधे हिस्से के लिए आनुपातिक भूमि के हिस्से के रूप में 1/6 वें लिया जाना चाहिए, न कि 1/8 वीं के रूप में माना जाना चाहिए।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

56.	11792/1/23466/ 08.12.2017	75.25 ,37.63	भू.ला.- 75.25*70080/2=2636760 नि.ला.-37.63*9360*0.6 = 211330 कुल लागत - 2848090	4%=113924 1%=28481 =142405	प्रतिफल राशि ₹ 2750000 110000 +27500 =137500	4905	आधे हिस्से का हस्तांतरण किया गया, परन्तु दस्तावेज में प्रतिफल राशि के रूप में आधे हिस्सा का केवल 50% की नि.ला. लिया गया।
57.	11579/1/23457/04. 12.2017	40.14,77.5	भू.ला.- 40.14*70080 =2813011 नि.ला.-77.5*9360*.8 = 580320 कुल लागत-3393331	6%=203600 1%=33933 =237533	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	13533	निर्माण की लागत 77.5 वर्गमीटर के बजाय 44.5 वर्गमीटर ली गई थी।
58.	11801/1/23466/08. 12.2017	75.25,37.63	भू.ला.- 75.25*70080*1/2 = 2636760 नि.ला.- 37.63*9360*0.6 = 211330 कुल लागत - 2848090	6%=170885 1%=28481 =199366	प्रतिफल राशि ₹ 2750000 165000 +27500 =192500	6866	आधे हिस्से का हस्तांतरण किया गया, परन्तु दस्तावेज में प्रतिफल राशि के रूप में आधे हिस्सा का केवल 50% की नि.ला. लिया गया।
59.	11793/1/23466/08. 12.2017	75.25,75.25	भू.ला.-75.25*70080*1 = 5273520 नि.ला.-75.25*9360*.6) = 422604 कुल लागत- 5696124	4%=227845 1%=56961 =284806	प्रतिफल राशि ₹ 2750000 220000 +55000 =275000	9806	निर्माण की लागत 75.25 वर्गमीटर के बजाय 37.63 वर्गमीटर के लिए ली गई थी।
60.	11529/1/23455/01. 12.2017	41.8 , 40	भू.ला.-41.8*56640*1 = 2367552 नि.ला.-40*8220*4*1 = 1315200 कुल लागत- 3682752	6%=220965 1%=36828 =257793	प्रतिफल राशि ₹ 2700000 162000 +27000 =189000	68793	दस्तावेज में चार मंजिल के स्थान पर केवल एक मंजिल का प्लिंथ क्षेत्र शामिल किया गया।
61.	14530/1/24073/21. 12.2018	50,40	भू.ला.-50*127680/2 = 3192000 नि.ला.-40*11160 =446400 कुल लागत - 3638400	6%=218304 1%=36384 =254688	प्रतिफल राशि ₹ 2100000 126000 +21000 =147000	107688	दस्तावेज के अनुसार मंजिलों की संख्या दो है, जिसमें प्लॉट का आकार 50 वर्गमीटर है और हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ क्षेत्र 40 वर्गमीटर लिया गया है जो कि गलत लगता है।
एसआर, सरोजिनी नगर							
62.	1414/1/150/ 12.04.2016	104.55 , 115	भू.ला.-(1 st and 2 nd floor) : 104.55*245520*2)/3 = 17112744 नि.ला.-115*17400*0.6) = 1200600 कुल लागत- 18313344	6%=1098801 1%=183133 =1281934	प्रतिफल राशि ₹ 10000000 600000 +100000 =700000	581934	फ्लैट के रेट लिए गए, परन्तु बी-श्रेणी की मंजिल के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि आनुपातिक भूमि अधिकार (एफएआर) भी हस्तांतरित किए गये हैं।
63.	4338/1/788/ 29.08.2018	45.9, 287.5	भू.ला.-45.9*127680*1		प्रतिफल राशि	92331	चार मंजिलों का कुल प्लिंथ क्षेत्र 1150 वर्गमीटर है

			= 5860512 नि.ला.-287.5*11160*1 = 3208500 कुल लागत- 9069012	6%=544141 1%=90690 =634831	₹ 7750000 465000 +77500 =542500		और भूमि का क्षेत्रफल 306 वर्गमीटर है। भू-गृह का क्षेत्र गलत लिया गया है। इस प्रकार हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ 1150 वर्गमीटर का एक-चौथाई लिया गया है।
64.	1577/1/157/ 23.04.2016	321.91,354.37	भू.ला.-321.91*774000*2/5 =99663336 नि.ला.-354.37*21960*1 =7781965 स्टील्ट पार्किंग की लागत 897.13*21960/4/4) =1231311 कुल लागत- 108676612	5%=5433831 1%=1086766=6 520597	प्रतिफल राशि ₹ 89483333 4543000 +826000 =5369000	1151597	5 मंजिलों में से 2 मंजिलों की हस्तांतरित आनुपातिक भूमि 40% थी ना कि 30%, जैसा कि दस्तावेजों में लिया गया है।
65.	4426/1/511/ 10.10.2017	11.64, 11.64	भू.ला.-11.64*245520*3/2 = 4286779 नि.ला.-11.64*19920 = 231869 कुल लागत - 4518648	6%=271119 1%=45186 =316305	प्रतिफल राशि ₹ 700000 42000 +7000 =49000	267305	निर्मित प्लेटों की न्यूनतम दरों के बजाए दुकान के फ्लोर की गणना की गई।
66.	4600/1/289/ 08.11.2016	14.35, 14.35	भू.ला.-14.35*245520*3 = 10569636 नि.ला.-14.35*19920 = 285852 कुल लागत - 10855488	4%=434220 1%=108555 =542774	प्रतिफल राशि ₹ 3500000 140000 +35000 =175000	367774	निर्मित प्लेटों की न्यूनतम दरों के बजाए दुकान के फ्लोर की गणना की गई।
एसआर, लाजपत नगर							
67.	6079/1/483/ 13/12/2017	50.16, 50.16	भूमि का हिस्सा 50.16/250.8*50.16=10.032 भू.ला.-10.032*127680*1=1280886 नि.ला.-50.16*11160*1=559786 कुल लागत -1840672	4%=73627 1%=18407 =92034	प्रतिफल राशि ₹ 1300000 52000 +13000 =65000	27034	सेवा नगर डी श्रेणी में आता है। तथापि, स्टाम्प ड्यूटी ई' श्रेणी पर लगाई गई।
68.	4337/1/407/ 06.09.2017	150.15 का 10%	भू.ला.-150.5*127680/5 =3843168 नि.ला.-112.56*11160*1 =1256170 कुल लागत -5099338	6%=305960 1%=50993 =356953	प्रतिफल राशि ₹ 3400000 204000 +34000 =238000	118953	आनुपातिक भूमि के हिस्से के बजाए भूमि का हिस्सा 10 प्रतिशत लिया गया।
69.	4642/1/707/ 25.08.2018	217.38 का 10%	भू.ला.-217.38*159840/5 =6949204 नि.ला.-153*13920*1 =2129760 कुल लागत -9078964	(6+6+4)/3% =484211 1%=90789 =575000	प्रतिफल राशि ₹ 6000000 (6+6+4)/3% 320000 +60000 =380000	195000	आनुपातिक भूमि के हिस्से के बजाए भूमि का हिस्सा 10 प्रतिशत लिया गया।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

70.	1589/1/71/ 21.06.2016	150.5 का 12.5%	भू.ला.-167.22*127680/5 =4270130 नि.ला.-150.5*11160*1 =1679580 कुल लागत -5949710	5%=297486 1%=59497 =356983	प्रतिफल राशि ₹ 4200000 210000 +42000 =252000	104983	आनुपातिक भूमि के हिस्से के बजाए भूमि का हिस्सा 12.5 प्रतिशत लिया गया।
71.	1598/1/71/ 21.06.2016	167.22	भू.ला.-167.22*159840/5 =5345688 नि.ला.-167.22*13920*.9 =2094932 कुल लागत -7440620	6%=446437 1%=74406 =520843	प्रतिफल राशि ₹ 7500000 450000 +64000 =514000	6843	पंजीकरण शुल्क ₹74,40,620 के बजाय 64,00,000 पर भुगतान किया गया।
72.	2325/1/606/ 01.05.2018	83.61	भू.ला.-83.61*159840/4 =3341056 नि.ला.-13920*83.61 =1163851 कुल लागत -4504907	6%=270294 1%=45049 =315343	प्रतिफल राशि ₹ 400000 271000 +4000 =275000	40343	पंजीकरण शुल्क ₹45,04,906 के बजाय ₹4,00,000 पर भुगतान किया गया।
73.	4805/1/714/ 04.09.2018	418.06 का 10%	भू.ला.-41.806*774000*1 =32357844 नि.ला.-21960*110.14*.9 =2176807 कुल लागत -34534651	5%=1726733 1%=345347 =2072080	प्रतिफल राशि ₹ 15000000 1727500 +150000 =1877500	194580	पंजीकरण शुल्क ₹3,45,34,651 के बजाय ₹1,50,00,000 पर भुगतान किया गया।
74.	6079/1/483/ 13/12/2017	50.16	भूमि का हिस्सा 50.16/250.8*50.16=10.032 भू.ला.-10.032*127680*1 =1280886 नि.ला.-50.16*11160*1=559786 कुल लागत -1840672	4%=73627 1%=18407 =92032	प्रतिफल राशि ₹ 1300000 52000 +13000 =65000	27034	सेवा नगर डी श्रेणी में आता है। तथापि, स्टाम्प ड्यूटी डी श्रेणी की बजाय 'ई' श्रेणी पर लगाई गई।
एसआर, पीतमपुरा							
75.	11281/1/7726/06. 08.2018	62.7,47	भू.ला.-62.7*70080 =4394016 नि.ला.-9360*47*1 =439920 कुल लागत 4833936	6%=290036 1%=48339 =338375	प्रतिफल राशि ₹ 4800000 288000 +48000 =336000	2375	निर्माण घटक 1 के बजाय 0.8 लिया गया।
76.	14667/1/6610/08. 11.2016	-	80000	80000*12*2% =19200	17700	1500	वार्षिक औसत किराए की गणना 12 महीनों के बजाय 11 महीने के किराए पर की गई है।
एसआर, सीलमपुर							
77.	2073/1/4876/ 20.12.2017	35,35	भू.ला.-70080*35/2 =1226400		प्रतिफल राशि ₹ 1150000 46000		हस्तांतरण के अंतर्गत संपत्ति दो मंजिला है परन्तु

			नि.ला.-9360*35 =327600 कुल लागत -1554000	4%=62160 1%=15540 =77700	+11500 =57500	20200	भूमि के हिस्से की गणना करते समय इसे 2 के बजाय 3 से विभाजित किया गया है।
78.	1109/1/4839/ 02.08.2017	41.8,20.9	भू.ला.-56640*41.80 =2367552 नि.ला.-8220*20.90 =171798 कुल लागत -2539350	4%=101574 1%=25394 =126968	प्रतिफल राशि ₹ 2505000 100200 +25050 =125250	1718	निर्माण घटक 1 के बजाय 0.8 लिया गया, निर्माण का वर्ष उपलब्ध नहीं है।
79.	1228/1/4844/ 14.08.2017	83.61,142.13	भू.ला.-56640*83.61*1 =4735670 नि.ला.-8220*142.13 =1168309 कुल लागत -5903979	4%=236159 1%=59040 =295199	प्रतिफल राशि ₹ 49000008 196000 +49000 =245000	50199	स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया। पांचाल विहार और शाहदरा किसी भी श्रेणी में नहीं है और करावल नगर 'एफ' श्रेणी में आता है।
80.	583/1/4907/ 02.04.2018	83.61	भू.ला.-56640*83.61 =4735670	6%=284140 1%=47359 =331497	प्रतिफल राशि ₹ 3865000 231900 +38650 =270550	60947	करावल नगर 'एफ' श्रेणी में है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया।
81.	695/1/4911/ 12.04.2018	106.18	भू.ला.-56640*106.18 =6014035	4%=240561 1%=60140 =300701	प्रतिफल राशि ₹ 4910000 196400 +49100 =245500	55201	करावल नगर 'एफ' श्रेणी में है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया है।
82.	780/1/4915/ 20.04.2018	41.80,41.80	भू.ला.-41.80*56640*1 =2367552 नि.ला.-8220*41.80*1 =343596 कुल लागत -2711148	4%=108446 1%=27111 =135557	प्रतिफल राशि ₹ 2400000 96000 +4000 =120000	15557	करावल नगर 'एफ' श्रेणी में है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया है।
कुल						8040741	

- भू.ला.: भूमि लागत, नि.ला.: निर्माण लागत

अनुलग्नक 2.1

पैराग्राफ 2.1.2.8, पैराग्राफ 2.1.2.9 पर एवं पैराग्राफ 2.1.2.13 देखें

नवीनतम वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों जिनके लेखे को अंतिम रूप दिया गया है, के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विद्युत क्षेत्र उपक्रम की क्रियाकलाप एवं नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् निवल लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य ¹	संचित लाभ/हानि (निवल फ्री रिजर्व्स)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	जेनरेशन								
1.	इन्द्रप्रस्थ विद्युत जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2018-19	69.54	-19.84	449.52	736.54	6699.54	1,144.24	408.46
2.	प्रगति विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	679.48	264.38	3,234.61	2,074.19	1216.38	4,697.97	2,623.89
	उप-कुल		749.02	244.54	3,684.13	2,810.73	7915.92	5,842.21	3,032.35
ख.	ट्रांसमिशन								
3.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2018-19	725.01	398.00	1,144.79	3,951.00	3936.18	3,148.56	-802.44
	उप-कुल		725.01	398.00	1,144.79	3,951.00	3936.18	3,148.56	-802.44
ग.	अन्य								
4.	दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड	2017-18	185.60	163.94	109.18	745.05	715.39	-615.17	-1,360.22
5.	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड ²	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.23	0.22
	उप-कुल		185.60	163.94	109.18	745.06	715.62	-614.94	-1,360.00
	कुल कुल		1,659.63	806.48	4,938.10	7,506.79	12,567.72	8,375.83	869.91

¹ निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी, निर्बाध आरक्षितियों व अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त होता है।

आईपीजीसीएल के संबंध में ₹ 0.76 करोड़ एवं पीपीसीएल के संबंध में ₹ 0.11 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को निवल मूल्य के आकड़े को निकालने के लिए घटाया गया।

² डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड की निवल हानि ₹ 19,500 की है।

अनुलग्नक 2.2
पैराग्राफ 2.1.2.12 देखें

2001-02 से 31 मार्च 2019 तक चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेशित रा.रा.क्षे.दि.स. निधियों को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	आईपीजीसीएल				पीपीसीएल				डीटीएल				डीपीसीएल			
	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी
2001-02	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	323.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	13.13	635.50	0	0	0	3,452.00	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	464.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	497.54	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	239.00	0	0	0	0	0	0	332.35
2011-12	50.00	0	0	5.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.00
2012-13	49.00	0	0	4.00	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.65
2013-14	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	745.00	0	0	430.95
2014-15	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.00
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.18
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.01
2017-18	0	0	0	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	596.54	0	0	107.67	2,074.19	0	0	3.57	3,691.00	0	0	0	745.05	0	0	2,101.14

अनुलग्नक 2.3
(पैराग्राफ 2.1.3.3 देखें)

31 मार्च 2019 तक राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित इक्विटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र एवं सा.क्षे.उ. का नाम	विभाग का नाम	निगमित होने का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 ³ के अंत में इक्विटी				वर्ष 2018-19 के अंत में बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क.	सामाजिक क्षेत्र										
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के कल्याण	जनवरी-83	33.33	11.88	0.00	45.21	0.92	13.33	0.00	14.25
2.	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	नवम्बर-80	7.00	0.00	0.00	7.00	2.14	0.00	0.00	2.14
	कुल क			40.33	11.88	0.00	52.21	3.06	13.33	0.00	16.39
ख.	प्रतिस्पर्धी वातावरण										
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	फरवरी-71	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसंबर-75	6.28	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.04
6.	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.04
7.	डीएसआईआईडीसी मैनटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त-10	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

³ 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार संख्याएँ।

9.	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड	डीएसआईआईडीसी एवं टी.सी.आई.एल. का संयुक्त वेंचर	अप्रैल-87	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ख-I			37.93	0.00	1.03	38.96	0.00	0.00	0.08	0.08
10.	दिल्ली वित्तीय निगम	वित्त	अप्रैल-67	18.05	0.00	8.43	26.48	33.00	0.00	5.33	38.33
11.	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर-71	1,983.85	0.00	0.00	1,983.85	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14
	कुल ख- II			2,001.90	0.00	8.43	2,010.33	11,709.14	0.00	5.33	11,714.47
	कुल ख (I+ II)			2,039.83	0.00	9.46	2,049.29	11,709.14	0.00	5.41	11,714.55
ग.	अन्य										
12.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी	मई-08	10.76	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	शाहजहाँनाबाद पुनिर्विकास निगम	शहरी विकास	मई-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास मंत्रालय	जुलाई-16	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ग			10.76	250.00	0.00	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल कुल (क+ख+ग)			2,090.92	261.88	9.46	2,362.26	11,712.20	13.33	5.41	11,730.94

अनुलग्नक 2.4
(पैराग्राफ 2.1.3.7 देखें)

31 मार्च 2019 को इक्विटी, ऋणों एवं गारंटी के शेष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं एवं राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्त लेखे के अंतर को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखाओं के अनुसार			रा.रा.क्षे.दि. सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.वि.व. अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	33.33	60.72	0.00	38.13	69.82	0.00	-4.80	-9.10	0
2	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	7.00	2.14	0.00	7.00	4.36	0.00	0.00	-2.22	0

अनुलग्नक 2.5

(पैराग्राफ 2.1.3.8 देखें)

कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), जिनके लेखे उस अवधि के दौरान बकाया हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. स.	सा.क्षे.उ. का नाम	अवधि जहाँ तक लेखे को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	उन अवधि के दौरान, जिनके लिए लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	कुल
क.	सरकारी कंपनियाँ							
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.वि.व. अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड ⁴	2011-12	2012-13 से 2018-19	45.20	0.00	56.00	84.58	140.58
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	21.00	0.00	0.00	0	0
3	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.00	0.00	0.00	1.65	1.65
4	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ⁵	2016-17	2017-18 से 2018-19	10.65	0.00	0.00	0	0
5	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी ⁶ लिमिटेड	2017-18	2018-19	250.00	0.00	0.00	0	0
6	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.00	0.00	0.00	0	0
	कुल क			334.85	0.00	56.00	86.23	142.23
ख.	वैधानिक निगम							
1	दिल्ली वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	26.48	0.00	0.00	0	0
2	दिल्ली परिवहन निगम ⁷	2017-18	2018-19	1,983.85	0.00	0.00	1,855.17	1,855.17
	कुल ख			2,010.33	0.00	0.00	1,855.17	1,855.17
	सकल कुल (क+ख)			2,345.18	0.00	56.00	1,941.40	1,997.40

⁴ डीएससीएफडीसी के 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

⁵ डीटीआईडीसी के 2016-17 की अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

⁶ एनडीएमसी स्मार्ट सिटी के 2017-18 अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

⁷ डीटीसी के 2017-18 अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

अनुलग्नक 2.6

(पैराग्राफ 2.1.3.11 तथा 2.1.3.12 देखें)

राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), जिनके लिए लेखे को अंतिम रूप दिया गया, की नवीनतम वर्ष के लिए सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. स.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार एवं नाम	लेखे की अवधि	जिस वर्ष में प्राप्त हुआ	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व निवल लाभ/हानि	कर के पश्चात् निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क.	सामाजिक क्षेत्र									
	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.वि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2018-19	-4.45	-4.85	1.48	45.20	75.54	61.29	16.09
2	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	2.76	1.98	934.53	7.00	39.18	37.04	30.04
	कुल क			-1.69	-2.87	936.01	52.20	114.72	98.33	46.13
ख.	प्रतिस्पर्धी परिवेश क्षेत्र									
	1. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
3	दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	99.66	-22.36	1,144.52	21	587.46	587.46	566.46
4	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	42.88	37.26	1,257.38	6.28	180.28	180.28	174
5	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड	2018-19	2019-20	0	0	0	0.01	0.00	-0.04	-0.05
6	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	2018-19	2019-20	0	0	0	0.01	0.00	-0.04	-0.05
7	डीएसआईआईडीसी मैनटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	2018-19	2019-20	0	0	0	0.01	-0.07	-0.07	-0.08
8	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	57.02	23.01	68.33	10.65	73.98	73.98	63.33
9	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	2017-18	2018-19	6.29	3.66	148.31	1.00	22.13	22.13	21.13
	कुल ख 1			205.85	41.57	2,618.54	38.96	863.78	863.70	824.74
	2. कार्यशील सरकारी निगम									
10	दिल्ली वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	-0.01	-4.21	10.29	26.48	67.78	29.45	2.97

11	दिल्ली परिवहन निगम	2017-18	2018-19	175.59	-4,329.41	810.12	1,983.85	-19,812.92	-31,489.06	-33,472.91
	कुल ख II			175.58	-4,333.62	820.41	2,010.33	-19,745.14	-31,459.61	-33,469.94
	कुल (ख I + ख II)			381.43	-4,292.05	3,438.95	2,049.29	-18,881.36	-30,595.91	-32,645.20
ग.	अन्य									
12	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2018-19	2019-20	3.53	2.51	5.63	10.76	23.11	23.11	12.35
13	शाहजहाँनाबाद पुनिर्विकास निगम	2018-19	2019-20	0	0	0	0	0	0	0
14	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2019-20	-6.58	-6.12	0	250	229.61	229.61	-20.39
	कुल ग			-3.05	-3.61	5.63	260.76	252.72	252.72	-8.04
	सकल कुल (क+ख+ग)			376.69	-4,298.53	4,380.59	2,362.25	-18,513.92	-30,244.86	-32,607.11

अनुलग्नक 2.7

(पैराग्राफ 2.1.3.15 देखें)

2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) राज्य सरकार की निधियों को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

अ. सामाजिक क्षेत्र (1 एवं 2) तथा ब. प्रतिस्पर्धी परिवेश क्षेत्र (3, 4, एवं 5)															
क्र. सं.	1			2			3			4			5		
वर्ष	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम			दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड			दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड			दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड			दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड		
	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी
आरंभ से 2002 तक	12.77	0	0	7.00	0	0	21.86	0	0	6.28	0	0.2	0	0	0
2002-03	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2006-07	1.82	0	0	0	0	0	0.29	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2007-08	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2008-09	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2010-11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2011-12	3.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.59	10.65	0	0
2012-13	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2014-15	0	6.00	0	0	0	0	-1.15	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0

2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.50	0	0	0
कुल	33.33	56.00	0	7.00	0	0	21.00	0	0	6.28	0	9.04	10.65	0	0

ब. प्रतिस्पर्धी परिवेश क्षेत्र (6 एवं 7) स. अन्य (8 एवं 9)												
क्र. सं.	6			7			8			9		
वर्ष	दिल्ली वित्तीय निगम			दिल्ली परिवहन निगम			जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड			शाहजहाँनाबाद पुनर्विकास निगम		
	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी
आरंभ से 2002 तक	18.05	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	130.67	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	41.87	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	377.30	0	20.18	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	250.00	0	19.00	0.05	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	620.00	0	20.00	10.71	0	0	0	0	1.00
2010-11	0	0	0	219.00	0	65.45	0	0	0	0	0	4.93
2011-12	0	40	0	201.00	0	589.00	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	199.55	0	846.14	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	974.00	0	1.00	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	1,083.00	0	1.00	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	1,234.00	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	1,615.90	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	2,077.18	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	1,889.45	0	0	0	0	0	0
कुल	18.05	40	0	1,983.85	0	10,605.84	10.76	2.00	0	0	0	5.93

अनुलग्नक 2.8
(पैराग्राफ सं. 2.1.3.15 देखें)

दिपनि को छोड़कर 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान राराक्षेदिस द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य का वर्ष-वार विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान तथा सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी ऋण पर औसत ब्याज दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii			xi
2002-03	65.96 ⁸	1.27	0	0.2	1.47	67.43	11.17	74.96	7.53	23.48
2003-04	74.96	0	0	0.2	0.2	75.16	10.65	83.17	8.00	12.07
2004-05	83.17	0	0	0.2	0.2	83.37	10.34	91.99	8.62	16.70
2005-06	91.99	0	0	0.2	0.2	92.19	8.87	100.36	8.18	21.60
2006-07	100.36	2.11	0	0.2	2.31	102.67	9.35	112.27	9.60	28.44
2007-08	112.27	7.00	0	0.25	7.25	119.52	9.84	131.28	11.76	48.77
2008-09	131.28	0.69	0	0.25	0.94	132.22	9.90	145.32	13.09	-2.25
2009-10	145.32	10.71	0	1.25	11.96	157.28	9.52	172.25	14.97	31.10
2010-11	172.25	6	0	5.18	11.18	183.43	9.10	200.12	16.69	64.42
2011-12	200.12	14.48	40.00	0.59	55.07	255.19	9.77	280.12	24.93	149.54
2012-13	280.12	0	50.00	0.75	50.75	330.87	9.73	363.07	32.19	184.82
2013-14	363.07	0	1	0.75	1.75	364.82	9.21	398.42	33.60	120.75
2014-15	398.42	-1.15	7	0.75	6.6	405.02	8.59	439.81	34.79	123.76
2015-16	439.81	0	0	0.75	0.75	440.56	8.54	478.18	37.62	115.32
2016-17	478.18	0	0	0.75	0.75	478.93	8.65	520.36	41.43	30.36
2017-18	520.36	0	0	1	1	521.36	8.58	566.09	44.73	68.43
2018-19	566.09	0	0	1.5	1.5	567.59	8.64	616.63	49.04	33.34
कुल		41.11	98.00	14.77	153.88					

⁸ वर्ष 2001-02 तक दिपनि को छोड़कर सभी 8 सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस द्वारा किया गया यह ऐतिहासिक निवेश है। वर्ष 2001-02 के लिए व.मू. की गणना सरकारी कर्ज पर औसत ब्याज दर के अभाव में नहीं की गई है।

अनुलग्नक 2.9

(पैराग्राफ सं. 2.2.2 देखें)

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में मासिक शुल्कों के संग्रह का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सीइटीपी शुल्क	पानी शुल्क	अनुरक्षण शुल्क	कुल संग्रह राशि	रियायत प्राप्तकर्ता को किया गया भुगतान
2012-13	3.33	1.89	शून्य	5.22	5.22
2013-14	5.64	2.67	शून्य	8.31	7.49
2014-15	5.89	3.42	5.52	14.83	7.32
2015-16	6.77	4.73	13.28	24.78	14.47
2016-17	8.56	8.30	28.77	45.63	28.65
2017-18	10.10	11.78	24.84	46.72	40.89
2018-19	16.36	15.44	71.81	103.61	101.30
कुल	56.65	48.23	144.22	249.10	205.34

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मासिक शुल्कों के संग्रह का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सीइटीपी शुल्क	पानी शुल्क	अनुरक्षण शुल्क	कुल संग्रह राशि	रियायत प्राप्तकर्ता को किया गया भुगतान
2012-13	0.65	शून्य	शून्य	0.65	0.65
2013-14	3.20	0.04	0.19	3.43	3.36
2014-15	3.34	1.57	7.08	11.99	8.42
2015-16	2.68	1.83	8.03	12.54	14.10
2016-17	3.50	2.77	12.89	19.16	14.75
2017-18	3.02	2.49	12.09	17.60	17.30
2018-19	4.18	2.85	17.14	24.17	22.32
कुल	20.57	11.55	57.42	89.54	80.90

अनुलग्नक 2.10

(पैराग्राफ सं. 2.2.4.1, 2.2.4.2 एवं 2.2.5.1 देखें)

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड पार्टी इंजीनियर (टीपीई) के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर)* के अनुसार कमियाँ

क्र.सं.	सेवा	2016-17	2017-18	2018-19
		माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी
1.	नाला पुनर्सफाई कार्य/सिल्ट निकालना	7	8	8
2.	सीवर लाईन	7	10	8
3.	घर-घर कुड़ा/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)	7	8	4
4.	सड़क	7	10	8
5.	बागवानी कार्य	7	10	8
6.	पानी	7	10	8
7.	बिजली का काम (स्ट्रीट लाईट)	3	0	0
8.	सीइटीपी	प्रतिवेदन में वर्णित नहीं	2#	8

* 2016-17 के लिए प्रतिवेदन केवल 7 महीने के लिए, 2017-18 के लिए 10 महीने के लिए तथा 2018-19 के लिए 8 महीने के लिए उपलब्ध थे।

फरवरी 2018 से पहले यह मुद्दा सूचित नहीं किया गया तथा बाद में सभी महीनों में यह कमी रही।

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड पार्टी इंजीनियर (टीपीई) के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर)** के अनुसार कमियाँ

	2016-17	2017-18	2018-19
सेवा	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी
नाला पुनर्सफाई कार्य/सिल्ट निकालना	11	12	8
सड़क	12	12	8
बागवानी कार्य	3	12	8
पार्क	12	12	8
बिजली का काम (स्ट्रीट लाइट)	प्रतिवेदन में वर्णित नहीं	9#	8
एमएसडब्ल्यू	प्रतिवेदन में वर्णित नहीं	05 \$	8

** 2016-17 के लिए प्रतिवेदन 12 महीने के लिए, 2017-18 के लिए 12 महीने के लिए तथा 2018-19 के लिए 8 महीने के लिए उपलब्ध थे।

जुलाई 2017 से पहले यह मुद्दा सूचित नहीं किया गया तथा बाद में सभी महीनों में यह कमी रही।

\$ नवम्बर 2017 से पहले यह मुद्दा सूचित नहीं किया गया तथा बाद में सभी महीनों में यह कमी रही।

अनुलग्नक 3.1

(पैराग्राफ 3.1.1 देखें)

एनजीओ का विवरण जिन्होंने 2018-19 के दौरान ₹ 25 लाख या उससे अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त किए

(राशि ₹ लाख में)

क्रम. सं.	एनजीओ का नाम	प्राप्त की गई राशि
शिक्षा निदेशालय		
1.	उमीद आवासीय छात्रावास	38.19
महिला तथा बाल विकास विभाग		
2.	प्रयास ओएचबी 1	63.04
3.	सरस्वती एजुकेशनल सोसायटी	83.25
4.	पारदर्शिता	70.86
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग		
5.	शरण	41.31
6.	चाईल्ड सरवाइवल इण्डिया	27.49
7.	एसपीवाईएम	33.73
8.	कृष्णा फाउंडेशन	29.91
9.	स्पेस	29.23
10.	शरण-II	40.37
11.	किन्नर भारती	27.82
12.	स्पेस-II	29.32
13.	सहकुल चेरिटेबल ट्रस्ट-आईडीयू	35.36
14.	लव फेथ एण्ड ऐक्शन ट्रस्ट-आईडीयू	28.98
15.	गंगा सोशल फाउंडेशन टी 1-2 (आईडीयू)	29.81
16.	मैट्रिक्स सोसायटी फौर सोशल सर्विसेज (आईडीयू)	26.37
17.	दीपशिखा समिति	26.05
18.	एमआईटीआर (सीबीओ)	26.81
19.	बीपीएस - आईडीयू	35.95
20.	शरण - III	33.38
21.	रूरल एसोसिएशन फौर वूमन एलिगेशन्स ट्रिब्यूट (आरएडब्ल्यूएटी)	28.05
22.	ह्यूमेन डेवलपमेंट सोसायटी	31.65
23.	एसपीवाईएम (II)	26.67
कुल कुल		843.60

अनुलग्नक 3.2
(पैराग्राफ 3.1.5 देखें)

निमलेप को प्रस्तुत किए जा रहे ब्यौरे तथा स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	निकाय का नाम	निमलेप को लेखे की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी की गई	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखे के प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब की अवधि (31 मार्च 2019 तक)
1.	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	सौंपे जाने के समतुल्य (निमलेप कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं. 14-लेखापरीक्षा-III/128-98 दिनांक 15-01-2004)	2017-18	2016-17	2010-11	शून्य	शून्य
2.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2008-09	2016-17 2017-18	2
3.	दिल्ली जल बोर्ड	सौंपे जाने के समतुल्य (निमलेप कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं. गोपनीय नोट 497 दिनांक 16-12-2003)	2012-13	2012-13	2005-06	2013-18	5
4.	दिल्ली भवन, तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	संसद द्वारा अधिनियम के तहत गठित तथा अधिसूचित बोर्ड	2016-17	2015-16	प्रस्तुत नहीं की गई	2017-18	1
5.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	2016-17	शून्य	शून्य
6.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली	सौंपे जाने के समतुल्य (जैसाकि अवधि निर्निदिष्ट नहीं थी)	2017-18	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	शून्य	शून्य
7.	दिल्ली कल्याण समिति	2014-15 से 2022-23	2016-17	2014-15	समिति के एम.ओ.ए. के अनुसार पृ.ले.प.प्र. को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं थी	2017-18	1
8.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	सौंपे जाने के समतुल्य (जैसाकि अवधि निर्निदिष्ट नहीं थी)	2010 से आरम्भ किए जाने तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	शून्य	2010 से आरम्भ किए जाने तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	2010-18	8
9.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग	निमलेप के डीपीसी अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	2017-18	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सेक्शन 18 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा संचालित की गई है।	2017-18	2017-18	राज्य विधान सभा में आखिरी पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत करने के संबंध में डीएसएलएसए के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।	शून्य	शून्य

अनुलग्नक 3.3
(पैराग्राफ 3.2.6.2(ग) देखें)
कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कल्याण योजना	राशि वितरित
1.	मातृत्व लाभ (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 271)	3.52
2.	गृह क्रय या निर्माण हेतु अग्रिम (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 274)	0
3.	निःशक्तता पेंशन अनुग्रह भुगतान (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 275)	0.042
4.	कार्य से संबंधित यंत्रों की खरीद हेतु ऋण (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 276)	0.002
5.	मृत्यु लाभ (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 278) एवं दाह सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 277)	5.88
6.	लाभार्थियों को मेडिकल सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 280)	0.005
7.	बच्चों के शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 281)	104.74
8.	विवाह हेतु वित्तीय सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 282)	4.98
9.	पेंशन योजना (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 273)	2.31
10.	कार्य से संबंधित यंत्रों की खरीद हेतु अनुदान (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 276 क)	0
11.	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण एकेडमी की स्थापना (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 283)	0
12.	गर्भपात हेतु वित्तीय सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 271क)	0
13.	उपयोगिता का सामान प्रदान करना (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 283)	0
14.	परिवार पेंशन (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 283)	0
	कुल	121.47

यद्यपि “मृत्यु लाभ” एवं “दाह सहायता” अलग-अलग योजनाएँ हैं पर व्यय एक साथ किए गए हैं क्योंकि ये दोनों राशियाँ साथ में दी गई है।